



### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2015             | 2016             |                  | घट – बढ़       |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                                         | 17 अप्रैल        | 8 अप्रैल         | 15 अप्रैल        | सप्ताह         | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4              | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>14,746.17</b> | <b>16,721.19</b> | <b>16,955.17</b> | <b>233.98</b>  | <b>2,209.00</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 14,746.03        | 16,721.05        | 16,955.03        | 233.98         | 2,209.01        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.14             | 0.14             | 0.13             | -0.01          | -               |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |                |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.01             | 1.01             | 1.01             | -              | -               |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | -                | -                | -                | -              | -               |
| 2.3 राज्य सरकारें                       | 0.42             | 0.42             | 4.95             | 4.53           | 4.53            |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,598.63         | 3,858.63         | 3,895.20         | 36.57          | 296.57          |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 32.70            | 36.23            | 36.87            | 0.65           | 4.17            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 200.09           | 226.15           | 229.81           | 3.66           | 29.72           |
| 2.7 अन्य                                | 1,091.28         | 1,093.35         | 618.92           | -474.43        | -472.36         |
| 3 अन्य देयताएं                          | 7,968.49         | 9,670.16         | 9,690.44         | 20.28          | 1,721.96        |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>27,638.78</b> | <b>31,607.14</b> | <b>31,432.38</b> | <b>-174.77</b> | <b>3,793.59</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 20,105.44        | 22,528.40        | 22,538.14        | 9.74           | 2,432.70        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,191.60         | 1,334.29         | 1,334.29         | -              | 142.69          |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 5,231.92         | 6,160.29         | 6,314.16         | 153.87         | 1,082.24        |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |                |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | -                | -                | -                | -              | -               |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 4.75             | 10.16            | 30.23            | 20.07          | 25.48           |
| 4.3 नाबार्ड                             | -                | -                | -                | -              | -               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 902.02           | 1,267.41         | 939.95           | -327.46        | 37.93           |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | -                | -                | -                | -              | -               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | -                | -                | -                | -              | -               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | -                | -                | -                | -              | -               |
| 4.8 अन्य                                | 51.20            | 93.15            | 60.35            | -32.80         | 9.15            |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |                |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | -                | -                | -                | -              | -               |
| 5.2 खजाना                               | -                | -                | -                | -              | -               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 23.20            | 23.20            | -              | 10.00           |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 138.65           | 190.23           | 192.04           | 1.81           | 53.40           |

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 15 अप्रैल 2016 को |                   | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |               |                          |               |                |                 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                           |                   |                   | सप्ताह                     |               | मार्च 2016 की समाप्ति पर |               | वर्ष           |                 |
|                                           | ₹ बिलियन          | मिलि.अम. डॉलर     | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर | ₹ बिलियन       | मिलि.अम. डॉलर   |
|                                           | 1                 | 2                 | 3                          | 4             | 5                        | 6             | 7              | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>23,822.7</b>   | <b>3,60,250.9</b> | <b>9.5</b>                 | <b>333.7</b>  | <b>35.3</b>              | <b>74.7</b>   | <b>2,421.4</b> | <b>17,050.0</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 22,226.1          | 3,36,187.3        | 10.2                       | 341.4         | 35.5                     | 83.4          | 2,347.1        | 17,327.8        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,334.3           | 20,115.0          | -                          | -             | -                        | -             | 142.7          | 1,077.0         |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 99.5              | 1,498.1           | -0.3                       | -2.9          | -0.1                     | -3.4          | -150.2         | -2,507.1        |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 162.8             | 2,450.5           | -0.4                       | -4.8          | -0.1                     | -5.3          | 81.8           | 1,152.3         |

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 15 अप्रैल 2016 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएं = ₹ 3848.45 बिलियन | 2016     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                            | 2 अप्रैल | 3 अप्रैल | 4 अप्रैल | 5 अप्रैल | 6 अप्रैल | 7 अप्रैल | 8 अप्रैल | 9 अप्रैल | 10 अप्रैल | 11 अप्रैल | 12 अप्रैल | 13 अप्रैल | 14 अप्रैल | 15 अप्रैल |
|                                                                                                            | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                               | 3,978.6  | 3,978.6  | 3,891.2  | 3,896.9  | 3,871.2  | 3,961.8  | 3,858.8  | 3,858.8  | 3,858.8   | 3,951.1   | 3,883.8   | 4,000.7   | 4,000.7   | 3,895.3   |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                          | 103.4    | 103.4    | 101.1    | 101.3    | 100.6    | 102.9    | 100.3    | 100.3    | 100.3     | 102.7     | 100.9     | 104.0     | 104.0     | 101.2     |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 1 अप्रैल 2016<br>को बकाया | पखवाड़ा        | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                |                |                |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                           |                | वित्त वर्ष में अब तक      |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                                |                           |                | 2015-16                   | 2016-17        | 2015           | 2016           |
|                                                | 1                         | 2              | 3                         | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                           |                |                           |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 1,668.7                   | 155.3          | 199.8                     | 155.3          | 450.9          | 366.9          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 511.7                     | -135.6         | 34.7                      | -135.6         | 56.2           | 78.8           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 55.3                      | -28.8          | 5.1                       | -28.8          | -33.9          | -11.2          |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                           |                |                           |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 97,208.2                  | 3,421.7        | 3,262.0                   | 3,421.7        | 9,578.6        | 8,613.4        |
| 2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | 3.6            | 3.8                       | 3.6            | 12.1           | 9.7            |
| 2.1.1 मांग                                     | 10,832.4                  | 1,848.0        | 1,482.1                   | 1,848.0        | 1,806.3        | 1,410.0        |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 86,375.9                  | 1,573.7        | 1,779.9                   | 1,573.7        | 7,772.3        | 7,203.4        |
| 2.2 उधारियां                                   | 2,967.1                   | -22.7          | 47.3                      | -22.7          | 123.0          | 661.1          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,806.3                   | -239.8         | 367.0                     | -239.8         | 732.1          | -132.8         |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>3,264.0</b>            | <b>939.4</b>   | <b>616.4</b>              | <b>939.4</b>   | <b>1,826.6</b> | <b>1,065.6</b> |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>5,344.4</b>            | <b>891.1</b>   | <b>-58.1</b>              | <b>891.1</b>   | <b>494.5</b>   | <b>1,138.2</b> |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 598.3                     | 19.4           | -9.4                      | 19.4           | 78.5           | 74.1           |
| 4.1 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 4,746.1                   | 871.7          | -48.8                     | 871.7          | 416.0          | 1,064.1        |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                           |                |                           |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,950.9                   | 179.1          | 133.8                     | 179.1          | 352.8          | 443.0          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 166.1                     | -193.1         | -102.4                    | -193.1         | -141.2         | 42.6           |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 259.8                     | -0.7           | 28.3                      | -0.7           | 12.4           | 42.3           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 429.4                     | 46.5           | 73.2                      | 46.5           | 53.0           | -72.4          |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>25,953.3</b>           | <b>-445.6</b>  | <b>450.8</b>              | <b>-445.6</b>  | <b>2,672.3</b> | <b>584.3</b>   |
| 6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | -1.7           | 1.8                       | -1.7           | 11.8           | 2.3            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 25,938.9                  | -445.1         | 456.4                     | -445.1         | 2,674.1        | 585.0          |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 14.4                      | -0.5           | -5.6                      | -0.5           | -1.8           | -0.7           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>75,299.9</b>           | <b>2,523.4</b> | <b>2,661.0</b>            | <b>2,523.4</b> | <b>7,378.6</b> | <b>7,274.7</b> |
| 7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)                         |                           | 3.5            | 4.1                       | 3.5            | 12.2           | 10.7           |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                 | 1,012.1                   | -40.5          | -251.9                    | -40.5          | -203.9         | 319.8          |
| 7 क.1 खाद्येतर ऋण                              | 74,287.9                  | 2,563.9        | 2,912.9                   | 2,563.9        | 7,582.5        | 6,954.9        |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                | 73,026.2                  | 2,409.0        | 2,496.8                   | 2,409.0        | 7,338.7        | 7,405.5        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 295.6                     | 38.2           | 50.3                      | 38.2           | -5.9           | -98.8          |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                 | 1,327.2                   | 38.5           | 78.2                      | 38.5           | 84.2           | 49.1           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 233.3                     | 28.9           | 13.8                      | 28.9           | -12.0          | -21.7          |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                 | 417.6                     | 8.9            | 21.8                      | 8.9            | -26.4          | -59.4          |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2015       | 2016      |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     | 17 अप्रैल  | 18 मार्च  | 25 मार्च  | 1 अप्रैल  | 8 अप्रैल  | 15 अप्रैल |
|                                                     | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
| <b>अनुपात</b>                                       |            |           |           |           |           |           |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.00       | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 21.50      | 21.50     | 21.50     | 21.50     | 21.25     | 21.25     |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | 4.75       | 4.75      | ..        | 5.50      | ..        | ..        |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | 75.73      | 77.60     | ..        | 77.46     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | 36.09      | 87.68     | ..        | 73.75     | ..        | ..        |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | 29.57      | 28.15     | ..        | 26.70     | ..        | ..        |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | 46.31      | 17.52     | ..        | -13.02    | ..        | ..        |
| <b>दरें</b>                                         |            |           |           |           |           |           |
| नीतिगत रेपो दर                                      | 7.50       | 6.75      | 6.75      | 6.75      | 6.50      | 6.50      |
| रिवर्स रेपो दर                                      | 6.50       | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 6.00      | 6.00      |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 8.50       | 7.75      | 7.75      | 7.75      | 7.00      | 7.00      |
| बैंक दर                                             | 8.50       | 7.75      | 7.75      | 7.75      | 7.00      | 7.00      |
| आधार दर                                             | 9.75/10.25 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 | 9.30/9.70 |
| (एमसीएल) पखवाड़ा                                    | ..         | ..        | ..        | 8.95/9.15 | 8.95/9.15 | 8.95/9.15 |
| सावधि जमा दर >1 वर्ष                                | 8.00/8.75  | 7.00/7.90 | 7.00/7.90 | 7.00/7.50 | 7.00/7.50 | 7.00/7.50 |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00       | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 7.39       | 6.88      | 6.91      | 7.35      | 6.46      | 6.45      |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 7.85       | 7.27      | 7.23      | 7.27      | 6.85      | 6.81      |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..         | ..        | 7.17      | ..        | 6.93      | ..        |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 7.88       | 7.17      | ..        | 7.11      | ..        | 6.90      |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 7.84       | 7.55      | 7.52      | 7.42      | 7.45      | 7.42      |
| <b>भारिबै संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया</b>        |            |           |           |           |           |           |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 62.35      | 66.61     | 66.86     | 66.33     | 66.47     | 66.43     |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 67.13      | 75.30     | 74.91     | 75.10     | 75.90     | 75.46     |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह              | 7.99       | 8.74      | 9.69      | 6.78      | 6.68      | 7.23      |
| 3-माह                                               | 7.83       | 7.57      | 7.69      | 6.63      | 6.50      | 6.89      |
| 6-माह                                               | 7.83       | 7.10      | 7.13      | 6.57      | 6.44      | 6.74      |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |            | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |      |          |      |              |       |          |      |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|------|----------------------|------|----------|------|--------------|-------|----------|------|
|                                                    | 2016           |            | पखवाड़ा                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |      |          |      | वर्ष-दर-वर्ष |       |          |      |
|                                                    |                |            |                            |      | 2015-16              |      | 2016-17  |      | 2015         |       | 2016     |      |
|                                                    | 31 मार्च       | 1 अप्रैल   | राशि                       | %    | राशि                 | %    | राशि     | %    | राशि         | %     | राशि     | %    |
|                                                    | 1              | 2          | 3                          | 4    | 5                    | 6    | 7        | 8    | 9            | 10    | 11       | 12   |
| <b>एम<sub>3</sub></b>                              | 1,16,543.4     | 1,19,997.7 | 3,509.9                    | 3.0  | 3,281.5              | 3.1  | 3,454.4  | 3.0  | 11,620.2     | 12.0  | 11,214.6 | 10.3 |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)</b>                     |                |            |                            |      |                      |      |          |      |              |       |          |      |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 15,981.0       | 15,961.1   | 16.4                       | 0.1  | 14.1                 | 0.1  | -19.8    | -0.1 | 1,344.5      | 10.7  | 2,085.2  | 15.0 |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 9,970.2        | 11,830.3   | 1,860.1                    | 18.7 | 1,484.4              | 16.6 | 1,860.1  | 18.7 | 1,828.5      | 21.3  | 1,429.5  | 13.7 |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 90,437.7       | 92,055.5   | 1,617.8                    | 1.8  | 1,780.8              | 2.2  | 1,617.8  | 1.8  | 8,321.0      | 10.9  | 7,697.1  | 9.1  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि             | 154.5          | 150.8      | 15.7                       | 11.6 | 2.1                  | 1.5  | -3.7     | -2.4 | 126.3        | 580.1 | 2.8      | 1.9  |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>               |                |            |                            |      |                      |      |          |      |              |       |          |      |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 32,410.3       | 31,963.3   | -496.1                     | -1.5 | 849.2                | 2.8  | -447.0   | -1.4 | 693.1        | 2.3   | 1,040.1  | 3.4  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 4,250.0        | 4,253.3    | -45.7                      |      | 392.8                | -    | 3.4      |      | -2,163.9     | -     | 215.3    | -    |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 28,160.3       | 27,709.9   | -450.4                     | -1.6 | 456.4                | 1.7  | -450.4   | -1.6 | 2,857.0      | 11.9  | 824.8    | 3.1  |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 78,219.1       | 80,785.1   | 2,679.9                    | 3.4  | 2,655.1              | 3.8  | 2,566.0  | 3.3  | 7,848.7      | 12.0  | 7,703.7  | 10.5 |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 200.8          | 200.8      | 113.9                      | -    | -                    | -    | -        | -    | 62.9         | -     | 52.4     | -    |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 78,018.3       | 80,584.3   | 2,566.0                    | 3.3  | 2,655.1              | 3.8  | 2,566.0  | 3.3  | 7,785.8      | 12.0  | 7,651.3  | 10.5 |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 24,907.1       | 24,879.4   | 180.4                      | 0.7  | 83.4                 | 0.4  | -27.7    | -0.1 | 3,141.5      | 16.2  | 2,289.5  | 10.1 |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 219.1          | 219.1      | -                          | -    | -                    | -    | -        | -    | 20.9         | 12.1  | 24.8     | 12.7 |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 19,212.1       | 17,849.1   | -1,145.8                   | -6.0 | 306.2                | 1.7  | -1,363.1 | -7.1 | 83.9         | 0.5   | -156.5   | -0.9 |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं        | 9,541.7        | 9,513.8    | -14.4                      | -0.2 | 172.1                | 2.2  | -27.9    | -0.3 | -491.1       | -5.8  | 1,488.9  | 18.6 |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |           | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |       |          |       |              |       |         |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|------|----------------------|-------|----------|-------|--------------|-------|---------|------|
|                                                                  | 2016           |           | सप्ताह                     |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |          |       | वर्ष-दर-वर्ष |       |         |      |
|                                                                  |                |           |                            |      | 2015-16              |       | 2016-17  |       | 2015         |       | 2016    |      |
|                                                                  | 31 मार्च       | 15 अप्रैल | राशि                       | %    | राशि                 | %     | राशि     | %     | राशि         | %     | राशि    | %    |
|                                                                  | 1              | 2         | 3                          | 4    | 5                    | 6     | 7        | 8     | 9            | 10    | 11      | 12   |
| <b>आरक्षित मुद्रा</b>                                            | 21,807.4       | 21,474.9  | 266.0                      | 1.3  | -419.5               | -2.2  | -332.5   | -1.5  | 1,920.4      | 11.3  | 2,609.7 | 13.8 |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3)</b>                                       |                |           |                            |      |                      |       |          |       |              |       |         |      |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 16,634.6       | 17,174.1  | 234.0                      | 1.4  | 458.4                | 3.2   | 539.5    | 3.2   | 1,490.6      | 11.1  | 2,232.6 | 14.9 |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि                         | 5,018.3        | 4,161.9   | 40.9                       | 1.0  | -824.2               | -17.7 | -856.4   | -17.1 | 361.0        | 10.4  | 330.5   | 8.6  |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 154.5          | 138.9     | -8.8                       | -6.0 | -53.7                | -36.8 | -15.6    | -10.1 | 68.8         | 293.5 | 46.7    | 50.6 |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>                             |                |           |                            |      |                      |       |          |       |              |       |         |      |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 4,250.0        | 6,273.4   | 700.7                      | -    | 904.0                | -     | 2,023.5  | -     | -2,019.5     | -     | 1,724.2 | -    |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 4,245.6        | 6,248.1   | 685.1                      | -    | 934.5                | -     | 2,002.5  | -     | -2,005.2     | -     | 1,703.2 | -    |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 3,045.4        | 654.1     | -426.3                     | -    | -1,202.3             | -     | -2,391.3 | -     | 412.4        | -     | -168.7  | -    |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | 2,844.5        | 570.7     | -393.5                     |      | -1,117.6             |       | -2,273.8 |       | 438.6        |       | -188.3  |      |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 23,834.8       | 23,870.4  | 9.7                        | 0.0  | 24.0                 | 0.1   | 35.7     | 0.1   | 2,880.7      | 15.6  | 2,573.6 | 12.1 |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 219.1          | 219.1     | -                          | -    | 1.2                  | 0.6   | -        | -     | 20.7         | 11.9  | 23.6    | 12.1 |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 9,541.7        | 9,542.1   | 18.1                       | 0.2  | 146.4                | 1.9   | 0.3      | -     | -626.0       | -7.3  | 1,542.9 | 19.3 |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक         | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                     |                            | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (एकमुश्त) |        | निवल अंतर्वेशन<br>(+)/अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+8-2-4-7) |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------|----------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------|
|                | रेपो                  | रिवर्स रेपो | परिवर्तनशील रेपो दर | परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर |        |                      | विक्रय         | क्रय   |                                                       |
|                |                       |             |                     |                            |        |                      |                |        |                                                       |
|                | 1                     | 2           | 3                   | 4                          | 5      | 6                    | 7              | 8      | 9                                                     |
| 11 अप्रैल 2016 | 163.10                | 92.95       | 100.02              | —                          | 13.00  | —1.10                | —              | 150.00 | 332.07                                                |
| 12 अप्रैल 2016 | 132.45                | 117.13      | 245.05              | —                          | 6.61   | —3.40                | —              | —      | 263.58                                                |
| 13 अप्रैल 2016 | 75.33                 | 238.91      | 300.01              | —                          | 16.10  | 3.40                 | —              | —      | 155.93                                                |
| 15 अप्रैल 2016 | —                     | 130.33      | —                   | —                          | 28.41  | —                    | —              | —      | —101.92                                               |
| 16 अप्रैल 2016 | 27.09                 | 15.46       | —                   | —                          | 18.75  | —                    | —              | —      | 30.38                                                 |

### 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                                  | 2015  |       | 2016  |       | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|
|                                                                     | फरवरी | मार्च | फरवरी | मार्च | माह                                | मार्च | वर्ष  |
|                                                                     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5                                  | 6     | 7     |
| <b>1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)</b>                          | 119.7 | 120.2 | 126.0 | 126.0 | 0.0                                | 4.8   | 4.8   |
| 1.1 ग्रामीण                                                         | 120.6 | 121.1 | 127.9 | 128.0 | 0.1                                | 5.7   | 5.7   |
| 1.2 शहरी                                                            | 118.7 | 119.1 | 123.8 | 123.8 | 0.0                                | 3.9   | 3.9   |
| <b>2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)</b> | 253.0 | 254.0 | 267.0 | ..    | ..                                 | ..    | ..    |
| <b>3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)</b>                            | 175.6 | 176.1 | 174.0 | 174.6 | 0.3                                | - 0.9 | - 0.9 |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                                | 240.9 | 239.0 | 244.7 | 244.1 | - 0.2                              | 2.1   | 2.1   |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                                   | 181.2 | 188.0 | 169.6 | 172.4 | 1.7                                | - 8.3 | - 8.3 |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                                | 154.0 | 153.9 | 153.1 | 153.7 | 0.4                                | - 0.1 | - 0.1 |

### 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 4 मार्च 2016   | 2,059.7                  | 492.7                   | 7.50 - 8.71           |
| 18 मार्च 2016  | 2,105.9                  | 678.6                   | 7.18 - 8.55           |

### 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 15 मार्च 2016  | 3,455.9                  | 826.6                   | 7.27 - 13.09          |
| 31 मार्च 2016  | 2,602.4                  | 673.6                   | 7.35 - 13.14          |

### 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह     |                  |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                          | 17 अप्रैल<br>2015 | 8 अप्रैल<br>2016 | 15 अप्रैल<br>2016 |
|                          | 1                 | 2                | 3                 |
| 1 मांग मुद्रा            | 171.0             | 472.7            | 300.5             |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 75.6              | 17.8             | 173.7             |
| 3 सीबीएलओ                | 1,285.9           | 1,442.2          | 1,345.8           |
| 4 बाजार रेपो             | 1,282.6           | 1,270.5          | 2,081.1           |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रेपो | -                 | 0.6              | 1.3               |

### 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 15 अप्रैल<br>2016 को | प्रमुख धारक |                      |               | कुल     |
|----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------|
|                      | बैंक        | प्राथमिक<br>व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                      | 1           | 2                    | 3             |         |
| 14-दिवसीय            | -           | -                    | 985.5         | 1,002.6 |
| 91-दिवसीय            | 494.3       | 290.2                | 412.1         | 1,431.5 |
| 182-दिवसीय           | 249.3       | 332.2                | 55.7          | 775.8   |
| 364-दिवसीय           | 414.1       | 648.8                | 19.6          | 1,479.7 |
| सीएमबी               | -           | -                    | -             | -       |

### 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि                |                                |         | जुटाई गई निवल राशि               |                                |         |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------|
|                  | 2016 -17<br>(15 अप्रैल 2016 तक ) | 2015-16<br>(17 अप्रैल 2015 तक) | 2015-16 | 2016 -17<br>(15 अप्रैल 2016 तक ) | 2015-16<br>(17 अप्रैल 2015 तक) | 2015-16 |
|                  | 1                                | 2                              | 3       | 4                                | 5                              | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 150.0                            | 160.0                          | 5,850.0 | -201.5                           | 160.0                          | 4,406.3 |
| 2. राज्य सरकारें | -                                | 81.8                           | 2,945.6 | -                                | 81.8                           | 2,593.7 |

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका [www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री सुनिल कुमार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।